

भारत सरकार
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य केन्द्र, लखनऊ
हिन्दी पखवाड़ा - 2022 का आयोजन

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं सरकार की राजभाषा नीति के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ में दिनांक 14 सितम्बर 2022 से 28 सितम्बर 2022 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान एन०आई०सी० राज्य केन्द्र, लखनऊ में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 27 एवम् 28 सितम्बर 2022 को किया गया।

दिनांक 14 सितम्बर 2022 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया एवं हिन्दी पखवाड़ा का शुभारंभ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री आर.एच. खान द्वारा हिन्दी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 27 सितम्बर 2022 को भाषण प्रतियोगिता एवम् निबंध प्रतियोगिता तथा दिनांक 28 सितम्बर 2022 को कविता पाठ प्रतियोगिता एवम् श्रुत लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

उक्त सभी प्रतियोगिताओं में एन०आई०सी० राज्य केन्द्र एवं जनपदीय अधिकारियों ने उत्साहपूर्ण तरीके से प्रतिभाग किया। हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक श्री आर.एच. खान द्वारा किया गया।

दिनांक 27 सितम्बर, 2022 को आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक का स्वागत अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (मुख्यालय) श्री आशेष कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। भाषण प्रतियोगिता में अधिकारियों ने अपनी भावनाओं को प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त किया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जनपद जैसे बदायूँ, बस्ती, फिरोजाबाद, बिजनौर एवं अन्य जनपद के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में डा. डी.के. सोनी, अपर निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आमंत्रित किया गया। राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक ने अतिथि निर्णायक महोदय का स्वागत किया एवम् उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया।

दिनांक 28 सितम्बर 2022 को आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक का स्वागत अपर राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी श्री जी०पी० सिंह द्वारा किया गया। कविता पाठ प्रतियोगिता में समस्त प्रतिभागियों ने कविताओं का सस्वर पाठ किया। इस दौरान कुछ प्रतिभागियों ने स्वरचित कविताओं का भी पाठ किया। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में श्रीमती मीनू त्रिपाठी, सहायक निदेशक (राजभाषा), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ को आमंत्रित किया गया। राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक ने अतिथि निर्णायक महोदय का स्वागत किया एवम् उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया।

पखवाड़े के समापन के दौरान अपने उद्बोधन में राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी ने राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और व्यक्त किया कि एन0आई0सी0 के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यकलापों में हिन्दी का महत्तम प्रयोग करना चाहिये। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हिन्दी प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया एवम् इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नवनियुक्त अधिकारी भी हिन्दी के महत्व को भलीभांति समझ रहे हैं तथा इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

अपर राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी श्री संजीव गहलौत ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनायें दी तथा पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए वर्ष में हिन्दी पखवाड़े के अतिरिक्त भी इस तरह के अन्य आयोजन करने का सुझाव दिया।

इसी क्रम में एन0आई0सी0 उ0प्र0 राज्य केन्द्र के श्री राजेन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक-एफ तथा श्री विजय कुमार, डी.आई.ओ. प्रयागराज ने कविता पाठ किया। अंत में श्री आसिम आफताब, वैज्ञानिक एफ ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा सभी अधिकारियों को हिन्दी भाषा में तकनीकी आलेख लिखने के लिए प्रेरित किया।

समस्त कार्यक्रमों एवम् प्रतियोगिताओं के रूपरेखा निर्माण एवम् संचालन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य श्री शैलेश श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-एफ द्वारा किया गया। अतिथियों से समन्वय में अपर राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी श्री अंशु रोहतगी एवम् श्री विनय कश्यप, वैज्ञानिक-ई द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। प्रेस मीडिया से समन्वय में श्री नन्द किशोर, डी.आई.ओ. बिजनौर का योगदान उल्लेखनीय रहा।

सम्पूर्ण आयोजन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों यथा श्री शैलेश श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-एफ, श्री परवेज इस्लाम, वैज्ञानिक-एफ, श्रीमती वन्दना सिंह, वैज्ञानिक-ई, श्री संदीप अब्लाश, वैज्ञानिक-ई, श्री दुर्गा प्रकाश त्रिपाठी, वैज्ञानिक-सी तथा श्री राजेश यदुभूषणम, सहायक अनुभाग अधिकारी का ससमय संयोजन एवम् योगदान सराहनीय रहा।

हिन्दी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सूची निम्नवत है -

क्रम सं०	प्रतिभागी का नाम	क्रम सं०	प्रतिभागी का नाम	क्रम सं०	प्रतिभागी का नाम
1	शाइना पणिकर (6408)	10	शिशिर कान्त (3466)	19	आशीष कुमार (7076)
2	अभिषेक कुमार (5817)	11	संजय कुमार (5555)	20	गौरव सचान (6947)
3	रमेश प्रसाद (5842)	12	राजेश कुमार शर्मा (1345)	21	अपर्णा खरे (6693)
4	मो० रिज़वान (5843)	13	सुमेश कुमार (3367)	22	धीरज कुमार आर्य (5989)
5	रश्मि दीक्षित (7701)	14	प्रवीण कुमार (6176)	23	नन्द किशोर (2352)
6	बृज किशोर (7408)	15	यशवी माहेश्वरी (7403)	24	आलोक कुमार मिश्र (7023)
7	राशि अग्रवाल (7122)	16	महेंद्र (6150)	25	अमित सक्सेना (5169)
8	दिव्यांशी कुशवाहा (7124)	17	अविरल अवस्थी (7596)		
9	बीरेन्द्र बहादुर मिश्र (6671)	18	आदित्य चतुर्वेदी (7641)		

छवि गैलरी



एनआईसी द्वारा हिन्दी पखवाड़े के अन्तर्गत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

बिजनौर (विंध्यगढ़)। हिंदी पखवाड़ वर्ष-2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न भाषा उल्लेखित है।

जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी बिजनौर ने



पुलिस कांस्टेबल ने किया रक्तदान

बल्लभपुर (विंध्यगढ़)। सीतामढ़ पुलिस चौकी जलिलपुर पर निवास करनेवाले मनोज निगम ने आज जिला अस्पताल बिजनौर के ब्लाड बैंक में अपना ओरिजिनल ब्लड डोनेट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 6 महिने पहले भी जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को ब्लड डोनेट किया था।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है कि विंगो सोशल डेस्क में प्रकाशित किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उल्लेख या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार-पर उल्लेख या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार-पर ऐसे विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। -प्रकाशक

पर अपने विचार व्यक्त किए गए। प्रत्येक प्रतियोगिता हेतु चार पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार- 1500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1200 रुपये, तृतीय पुरस्कार 900 रुपये तथा चतुर्थ पुरस्कार 600 रुपये दिया गया। यह जानकारी नंदकिशोर

सूचना विज्ञान केन्द्र पर हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन

बिजनौर (बि.टी.)। राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र लखनऊ तथा समस्त जिला सूचना-विज्ञान केंद्रों द्वारा 28 सितम्बर को हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, श्री आर.एच.खान, को अध्यक्षता एवं श्री आशीष कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी को उपाध्यक्षता में संभल हुआ। हिन्दी पखवाड़े कार्यक्रम के संयोजक समिति में श्री रैलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, श्रीमती वंदना सिंह, तकनीकी निदेशक, श्री संदीप अभिषेक, तकनीकी निदेशक, श्री दुर्गा प्रसाद विपाठी एवं श्री राजेश यदुवंशी सदस्य रहे। प्रतियोगिताओं में जनपद बिजनौर से नंद किशोर, बदरयूं से राजेश कुमार शर्मा, फिरोजबाद से सोमेश कुमार, मेरठ से अभिनव कुमार सक्सेना, अमेठी से शिशिर कोत, रायबरेली से



विजय कुमार द्वारा प्रतिभाग किया गया। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र लखनऊ से रमेश प्रसाद, रिजवान अहमद, रॉमि दक्षित, ब्रज किशोर, राशि अग्रवाल, मयंक जोशी, देवाशी कुशवाहा, साहना पट्टीकर, प्रवीण कुमार, यशवीर महेश्वरी, अविर्ल अवस्थी, आदित्य चतुर्वेदी, गौरव संचान आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता के अंत में संजीव गहलोत, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी द्वारा समस्त प्रतिभागियों को प्रोत्साहन करने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया, श्री आर.एच.खान, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी द्वारा कार्यालय में अधिक से अधिक हिन्दी में कार्य करने पर जोर दिया गया तथा हिन्दी पखवाड़े को सफल बनाने में समस्त प्रतिभागियों तथा संयोजक समिति के सदस्यों, निर्णायक मंडल के सदस्यों के प्रयास को सराहना किया गया।

हिन्दी पखवाड़े पर प्रतियोगिता का आयोजन

बिजनौर। राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिला सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन हुआ। हिन्दी पखवाड़े कार्यक्रम में निबंध व भाषण, श्रुत लेख एवं कविता पाठ विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में जनपद बिजनौर से नंद किशोर, बदरयूं से राजेश कुमार शर्मा आदि ने प्रतिभाग किया। संवाद

अमर उजाला - Date - 30/9/2022

हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवम् निर्णायक महोदया

